



भारत का राजपत्र The Gazette of India

(साप्ताहिक/WEEKLY)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23—अप्रैल 29 2005 (वैशाख 3 1927)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23—APRIL 29, 2005 (VAISAKHA 3, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	471	भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (सब शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरा की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	403
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	401	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निवृत्तक और महालखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	403
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	557	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	229
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, प्रस्तावित अधिनियम और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मृत्यु आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अधिसूचनाएं जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, प्रस्तावित अधिनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1379
भाग II—खण्ड 2—विशेषक तथा विशेषकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्टें	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकार निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	115
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (सब शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पुरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1— Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	471	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)— Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..	
PART I—SECTION 2— Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	401	PART II—SECTION 4— Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	
PART I—SECTION 3— Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..	3	PART III—SECTION 1— Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. ..	403
PART I—SECTION 4— Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ..	557	PART III—SECTION 2— Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ..	229
PART II—SECTION 1— Acts, Ordinances and Regulations ..	*	PART III—SECTION 3— Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners ..	*
PART II—SECTION 1A— Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..	*	PART III—SECTION 4— Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	1379
PART II—SECTION 2— Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..	*	PART IV— Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies ..	115
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)— General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..		PART V— Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc both in English and Hindi ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories). ..	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(नक्का संकल्प को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् निर्देशों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 1 अप्रैल 2005

संकल्प

फा० सं० के-16/4/98-पी एण्ड आर—दिनांक 10-12-2004 के समसंख्यक संकल्प के तहत अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड दो वर्षों के लिए पुनर्गठित किया गया था। भारत सरकार ने पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में नामांकित निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों की अवधि को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है :—

1. श्री अशोक मालवीय
मालवीय हैण्डिक्राफ्ट्स
अबु रोड, राजस्थान।
2. श्री अनिल मोदी
16/22, शक्ति नगर,
नई दिल्ली।

भारत सरकार ने पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में निम्नलिखित नये गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने तथा दिनांक 10-12-2004, 10-2-2005 तथा 16-3-2005 के संकल्प में रिकार्ड किए गए सभी सरकारी एवं शेष गैर-सरकारी सदस्यों को मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में बनाए रखने का निर्णय लिया है :—

1. श्री अशोक बहुलकर
“निकेत” ए-8, 24-मुन्दरनगर,
बिखानगरी मार्ग, कलिन(, मुम्बई-400098
महाराष्ट्र।

2. श्री नैशाध बी० देसाई
श्रमजीवी सेवालय
स्टेशन के सामने, सूरत-395003
गुजरात।

3. श्री जी० कृष्ण गोवडा
नं० 548, 15वां मेन, सेक्शन सी-क्रॉस
फर्स्ट ब्लॉक, तीसरी गली, बसवेसवरनगर
बंगलूर-560079 कर्नाटक।

पुनर्गठित अखिल भारतीय इतिहास बोर्ड में अब अष्टाक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्य और 43 गैर-सरकारी सदस्य होंगे। दिनांक 10-12-2004 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा० संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2005

संकल्प

सं० एफ० 3-5/2005-यू-3—जबकि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् की पिछली परिषद् 18 फरवरी, 2002 को गठित की गई थी। परिषद् की अवधि 25 मार्च, 2005 को समाप्त हो रही है, अतः भारत सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, 1972 की नियमावली के नियम 3 के अधीन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव किया है। इसमें 26 मार्च 2005 से या पुनर्गठित परिषद् की प्रथम बैठक की तिथि से, जो भी

पहले हो, तीन वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- I. अध्यक्ष प्रो० डी० एन० त्रिपाठी को 5 फरवरी, 2004 से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विज्ञान, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष) लीला निलायन, 99-ए, इंदिरा नगर पो० आ० शिवपुरी, नई कालोनी, गोरखपुर

II. भारत सरकार द्वारा नामित अठ्ठारह इतिहासविज्ञ

1. प्रो० वाई० सुब्बारायलु एपीग्राफी विभाग तमिल विश्वविद्यालय तंजावूर, (तमिलनाडू)
2. प्रो० के० एन० पाणिकर, कुलपति श्री शंकरा यूनियर्सिटी आफ संस्कृत, कालादी, केरल
3. प्रो० शिरीन मूसवी अध्यक्ष, इतिहास में उच्च अध्ययन केन्द्र, डीन, सामाजिक विज्ञान संकाय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़
4. प्रो० जे० पी० मिश्रा इतिहास विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश
5. प्रो० सूरजभान, 1817 हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर-1 रोहतक, हरियाणा
6. प्रो० रजत के० राय, इतिहास विभाग प्रेसीडेसी कलेज, कोलकाता
6. डॉ० इम्तियाज अहमद निदेशक ख्वाबकश पुस्तकालय बंकीपुर पटना, बिहार

8. प्रो० बरून डे 55/2 वालीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता-700019
 9. प्रो० तामो मिबांग आदिवासिय अध्ययन विभाग तथा समकुलपति अरुणाचल विश्वविद्यालय
 10. प्रो० डेविड रीड सिमीलीह इतिहास के प्रोफेसर नेहू शिलांग-793022, मेघालय
 11. प्रो० के० पाद्या, निदेशक, दक्कन कलेज, पुणे महाराष्ट्र
 12. प्रो० मरयम दोसाल इतिहास विभाग बम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई
 13. प्रो० अजरफ वाणी इतिहास विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर
 14. प्रो० इंदु बांगे प्रोफेसर, इतिहास पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़
 15. प्रो० शाहिद अमीन, दिल्ली विश्वविद्यालय
 16. प्रो० डी० एन० झा इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली
 17. प्रो० वासुदेव चटर्जी, प्रोफेसर, इतिहास दिल्ली विश्वविद्यालय
 18. प्रो० सव्यसाची भट्टाचार्य सेवामुक्त प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
- III. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि
- IV. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली-110001
- V. महानिदेशक, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली-110001

VI. भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले चार व्यक्ति

- (1) सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या उनके नामित व्यक्ति।
- (2) सचिव, संस्कृति विभाग या उनके नामित व्यक्ति।
- (3) वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- (4) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कोसकासा

VII. सदस्य सचिव, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद,
35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सदस्य, सचिव, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली को भेजी जाए।

डी० के० पालीवाल
उप शिक्षा सलाहकार

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2005

संकल्प

सं० एफ० 7/49/2004 य० 5—अंगम ज्ञापन और भारतीय सामाजिक विज्ञान आयोग परिषद, नई दिल्ली की नियमावली के नियम 3 और 6 के अन्तर्गत भारत सरकार ने 5 अप्रैल, 2005 से 3 वर्ष की अवधि के लिए नमूनेलिखित समाज वैज्ञानिकों को परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है :—

1. डा० जावेद आलम,
सीआईईएफएल,
हैदराबाद
2. प्रो० तीस्ता बागची,
दिल्ली विश्वविद्यालय
3. प्रो० बी० बी० भट्टाचार्य,
आर्थिक वृद्धि संस्थान,
दिल्ली
4. प्रो० सारित भौमिक,
मुम्बई विश्वविद्यालय
5. प्रो० कमल मित्रा चित्तौड़,
जे० एन० यू०
6. प्रो० गणेश देवी,
आदिवासी अकादमी एवं भाषा,
अनुसंधान और प्रकाशन केन्द्र,
62 श्रीनाथधाम सोसायटी,
वडोदरा-390007
7. श्री राजीव धवन,
अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय

8. प्रो० पी० पी० घोष,
एडीआरआई, पटना
9. श्री डी० आर० गोयल,
नई दिल्ली
10. श्री संचय हजारीका,
दिल्ली
11. प्रो० एम० ए० कलाम,
मद्रास विश्वविद्यालय
12. प्रो० जॉन केट्टाकायम,
केरल विश्वविद्यालय
13. प्रो० के० एन० नायर,
निदेशक, सीडीएस,
त्रिवेन्द्रम
14. श्री ए० जी० नूरानी,
उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता,
मुम्बई
15. प्रो० शर्मिष्ठा रेजे,
पुणे विश्वविद्यालय
16. डा० ई० ए० एस० सर्मा,
पूर्व सचिव,
भारत सरकार
17. प्रो० रवि ओशास्त्र,
जे० एन० यू०
18. सुश्री मधुरा स्वामीनाथन,
आईएसआई, कोलकाता

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित सदस्यों को भारत सरकार का प्रतिनिधि नामित किया जाता है :—

1. श्री बी० एस० बसवान,
शिक्षा सचिव
2. श्रीमती रीना नायर,
सचिव, डब्ल्यू सीडी
3. प्रो० कमला प्रसाद,
उपाध्यक्ष,
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान
4. प्रो० उदय नारायण सिंह,
निदेशक, सीआईआईएल मैसूर
5. प्रो० कृष्ण कुमार,
निदेशक, एन।पी।आरटी
6. श्री सती कुमार राय,
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुनिल कुमार, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 12th April 2005

CORRIGENDUM

No. 36-Pres/2005—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 127-Pres/2004 dated 15th August, 2004 published in Part-I, Section-1 of the Gazette of India dated 13th November, 2004 relating to the award of Kirti Chakra :—

In Serial No. 1, the name appearing as "Shri Narindra Nath Dhar Dubey" may be read as "Shri Narendra Nath Dhar Dubey".

BARUN MITRA
Director

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110006, the 1st April 2005

RESOLUTION

No. K-16/4/98-P&R—The All India Handicrafts Board was re-constituted vide resolution of even No. dated 10-12-2004 for a tenure of two years. The Government of India has decided to terminate the term of following non-official members nominated on the All India Handicrafts Board with immediate effect :—

1. Shri Ashok Malviya
Malviya Handicrafts
Atu Road, Rajasthan
2. Shri Anil Modi
16/22, Shakti Nagar,
New Delhi.

The Government of India has also decided to induct following new non-official members in the re-constituted All India Handicrafts Board while retaining all official and remaining non-official members of the existing All India Handicrafts Board recorded in the resolution dated 10-12-2004, 10-2-2005 and 16-3-2005:—

1. Shri Ashok Bahulkar,
"Niket" A-6, 24-Sundernagar,
Vidhyanagari Marg,
Kalina, Mumbai-400098,
Maharashtra.
2. Shri Naishadh B. Desai,
Shramjivi Sevalaya,
Opp. Station, Surat-395003,
Gujarat

3. Shri G. Krishna Gowda,
No. 548, 15th Main, Second C-Cross,
1st Block, 3rd Street, Basaveswaranagar,
Bangalore-560079
Karnataka.

Now, there will be a Chairman, 24 official members including Member Secretary and 43 non-official members in the reconstituted All India Handicrafts Board. All other terms & conditions recorded in the resolution dated 10-12-2004 will remain same.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

Dr. SANDEEP SRIVASTAVA
Addl. Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 23rd March 2005

RESOLUTION

No. F. 3-5/2005-U.3—Whereas the previous Council of Indian Council of Historical Research (ICHR) was constituted on the 18th of February, 2002. The term of the Council is expiring on 25th March, 2005, the Government of India has resolved to re-constitute the Indian Council of Historical Research under Rule 3 of the "Rules of the Indian Council of Historical Research, New Delhi, 1972" with the following members for a period of three years w.e.f. 26th March, 2005 or the date of the first meeting of the re-constituted Council, whichever is later :—

1. Chairman

Professor D.N. Tripathi, (Retdx. Professor and Head of Dept. Ancient History and Archaeology, Gorakhpur University), Leela Nilayam, 99-A, Indira Nagar, P. O. Sheopuri New Colony, Gorakhpur.	Prof. D.N. Tripathi was appointed as the Chairman w.e.f. 5th February 2004 for a period of three years.
---	--

I. Eighteen historians nominated by the Government of India

1. Prof. Y. Subbarayalu,
Department of Epigraphy,
Tamil University,
Tanjavur (Tamil Nadu).
2. Professor K. N. Panikkar,
Vice-Chancellor,
Sree Sankara University of Sanskrit, Kaladi,
Kerala.
3. Prof. Shireen Moosvi,
Chairman,
Centre in Advanced Studies in History,
Dean, Faculty of Social Science,
AMU, Aligarh
4. Prof. J. P. Mishra,
Department of History,
Rani Durgawati University,
Jabalpur, M.P.
5. Prof. Suraj Bhan,
1817, Housing Board Colony,
Sector-1, Rohtak, Haryana.
6. Prof. Rajat K. Ray,
Department of History,
Presidency College,
Kolkata.
7. Dr. Imtiaz Ahmad,
Director,
Khuda Baksh Library,
Bankipur,
Patna, Bihar.
8. Prof. Barun De,
55/2, Baligunj,
Circular Road,
Kolkata-700019.
9. Prof. Tamo Mibang,
Department of Tribal Studies and Pro-Vice-
chancellor,
Arunachal University.
10. Prof. David Reid Syiemlieh,
Professor of History,
NEHU,
Shillong-793022. Meghalaya.
11. Prof. K. Paddayya,
Director,
Deccan College,
Pune,
Maharashtra.
12. Prof. Maryam Dossal,
Department of History,
Bombay University,
Mumbai.
13. Prof. Ashraf Wani,
Department of History,
University of Kashmir,
Srinagar, J & K.
14. Prof. Indu Bange,
Professor of History,
Punjab University,
Chandigarh.
15. Prof. Shahid Amin,
Delhi University.
16. Prof. D. N. Jha,
Department of History,
University of Delhi,
Delhi.
17. Prof. Basudev Chatterjee,
Professor of History,
Delhi University.
18. Prof. Sabyasachi Bhattacharya,
Professor Emeritus,
JNU.

III. Representative of the University Grants Commission.

IV. Director-General, Archaeological Survey of India, New Delhi-110001.

V. Director-General, National Archives of India, New Delhi-110001.

VI. Four persons to represent Government of India.

- (1) Secretary, Department of Secondary & Higher Education, Ministry of Human Resource Development or his/her nominee.
- (2) Secretary, Department of Culture or his/her nominee.
- (3) Financial Advisor, Ministry of Human Resource Development.
- (4) Director-General, Archaeological Survey of India, Kolkata.

VII. Member-Secretary, Indian Council of Historical Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi-110001.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Member-Secretary, Indian Council of Historical Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi-110001.

D. K. PALIWAL,
Deputy Educational Adviser

New Delhi, the 29th March 2005

RESOLUTION

No. F-7/48/2004-U.S.—Under Rules 3 and 6 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, the Government of India nominate the following Social Scientists as Members of the Council for a period of three years with effect from 5th April, 2005 :—

1. Dr. Javed Alam,
CIEFL,
Hyderabad
2. Prof. Teesta Bagchi,
Delhi University
3. Prof. B.B. Bhattacharya,
Institute of Economic Growth,
Delhi
4. Prof. Sharit Bhowmik,
University of Mumbai
5. Prof. Kamal Mitra Chinoy,
J.N.U.
6. Dr. Ganesh Devvy,
Adivasi Academy & Bhasha
Research & Publication Centre,
62 Shrinathdham Society,
Vadodara 390007
7. Shri Rajeev Dhawan,
Advocate, Supreme Court
8. Prof. P.P. Ghosh,
ADRI
Patna
9. Shri D.R. Goyal
New Delhi
10. Shri Sanjay Hazarika,
Delhi
11. Prof. M.A. Kalam,
Madras University
12. Prof. John Kattakayam,
University of Kerala
13. Prof. K. N. Nair,
Director, CDS,
Trivandrum
14. Shri A. G. Noddani,
Supreme Court Advocate,
Mumbai
15. Prof. Sharmila Rege,
Pune University
16. Dr. E.A.S. Sarma,
Former Secretary,
Government of India
17. Prof. Ravi Srivastava,
J.N.U.
18. Ms. Mithura Swaminathan,
ISI, Kolkata

In addition, the following are nominated as Representatives of the Government of India.

1. Shri B. S. Baswan,
Education Secretary
2. Smt. Reva Nayar,
Secretary, WCD
3. Prof. Kamla Prasad,
Vice Chairman,
Kendriya Hindi Sansthan
4. Prof. Udai Narayan Singh,
Director, CIIL, Mysore
5. Prof. Krishna Kumar,
Director, NCERT
6. Shri Sanat Kumar Ray,
JS & FA, MHRD

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUNIL KUMAR
Joint Secretary